

^ दर्शन कर निज भगवान् का _^_

घट राखो अटल सुरती ने, दरसन कर निज भगवान का ॥

सतगुरु धोरे गया सत्संग में, गुरांजी भय दिया हरी रंग में ।

शब्द बाण मारया मेरे तन में, सैल लाग्या ज्याणु स्यार का ।

मेरा मन चेत्या भक्ति में, घट राखो अटल सुरती ने ॥ १ ॥

जब से शब्द सुण्या सतगुरु का, खुलगा खिड़क मेरे काया नगर का ।

मात पिता दरस्या नहीं घरका, दूत लेज्या यमराज का ।

तेरा कोई न संगी जगती में, घट राखो अटल सुरती ने ॥ २ ॥

नैन नासिका ध्यान संजोले, रमता राम निजर भरजोले ।

बिन बतलाया तेरे घट में बोले, बेरो ले भीतर बार का ।

अब क्यू भटकै भूली में, घट राखो अटल सुरती ने ॥ ३ ॥

अमृतनाथ जी रम रहया सुन्न में, मुझको दीदार दिखा दिया छीन में ।

मघो मगन होज्या भजन में, रूप सेख निराकार का ।

अब क्या सांसा मुक्ति में, घट राखो अटल सुरती ने ॥ ४ ॥

घट राखो अटल सुरती ने, दरसन कर निज भगवान का ॥

जय श्री नाथजी की